



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 407]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 8, 1979/आश्विन 16, 1901

No. 407]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 8, 1979/ASVINA 16, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 1979

का. आ. 572(अ)--18-कक उ.वि.वि.अ./79.—
केंद्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधि-
नियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उपधारा
(1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)
के आदेश सं. का.आ. 567(अ)/18-कक/उ.वि.वि.अ./78,
तारीख 25 सितम्बर, 1978 द्वारा आंशिक रूप में यथा
उपान्तरित, उस सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास
मंत्रालय के आदेश सं. का.आ. 602 (अ)/18-कक/उ.वि.
वि.अ./74, तारीख 9 अक्टूबर, 1974 द्वारा, श्री पी. एन.
रामचन्द्रन, मुख्य कार्यपालक, मैग्नेट मोटर एण्ड मशीनरी मेन्ट-
फैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता को, मैग्नेट मोटर एण्ड मशीनरी
मेन्टफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता के सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम
का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ;

और, प्रथम उल्लिखित आदेश द्वारा यथा उपान्तरित,
द्वितीय उल्लिखित आदेश केवल 8 अक्टूबर, 1979 तक,
जिसके अन्तर्गत वह तारीख भी है, प्रभावी रहेगा ;

और, केंद्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में यह
समीचीन है कि उक्त आदेश सं. का.आ. 567(अ)/18-कक/
उ.वि.वि.अ./78, तारीख 25 सितम्बर, 1978 द्वारा यथा
उपान्तरित उक्त आदेश सं. का.आ. 602 (अ.) 18-कक/
उ.वि.वि.अ./74, तारीख 9 अक्टूबर, 1974, उपर्युक्त
तारीख की समाप्ति के पश्चात्, दो वर्षों की अवधि के लिए
और प्रभावी बना रहना चाहिए ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और
विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा
18-क की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18-कक
की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
यह निदेश करती है कि उक्त आदेश सं. का.आ. 567 (अ.)/
18-कक/उ.वि.वि.अ./78, तारीख 25 सितम्बर, 1978
द्वारा यथा उपान्तरित, उक्त आदेश सं. का. आ. 602(अ.)/
18-कक/उ.वि.वि.अ./74, तारीख 9 अक्टूबर, 1974,
8 अक्टूबर, 1981 तक की, जिसमें वह तारीख भी सम्मि-
लित है, अवधि के लिए और प्रभावी बना रहेगा।

[का. सं. 2/9/74-सी.ए.एम.]

बी. राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 8th October, 1979

S.O. 572(E).—18AA/IDRA/79.—Whereas by the order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 602(E)/18AA/IDRA/74, dated the 9th October, 1974, as partially modified by the order of that Government in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 567(E)/18AA/IDRA/78, dated the 25th September, 1978, made in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 18AA of the Industrial (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government authorised Shri P.N. Ramachandran, Chief Executive, Messrs. Motor and Machinery Manufacturers Ltd., Calcutta to take over the management of the whole of the Industrial undertaking of Messrs Motor and Machinery Manufacturers Limited, Calcutta;

And, whereas, the order first mentioned, as modified by the order second mentioned, shall have effect only upto and inclusive of the 8th October, 1979;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said order No. S.O. 602(E)/18AA/IDRA/74, dated the 9th October, 1974, as modified by the said order No. S.O. 567(E)/18AA/IDRA/78, dated the 25th September, 1978, should continue to have effect after the expiry of the aforesaid date, for a further period of two years;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 18AA, read with the proviso to Sub-Section (2) of Section 18A, of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said order No. S.O. 602(E)/18AA/IDRA/74, dated the 9th October, 1974, as modified by the said order No. S.O. 567(E)/18AA/IDRA/78, dated the 25th September, 1978, shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 8th October, 1981.

[F. No. 2/9/74-CUS]

B. ROY, Joint Secretary